



Vikash Nehra

20 Jan 1988

09:15 AM

Maham

Model: Baby-Horoscope

Order No: 121236501


तिथि 20/01/1988 समय 09:15:00 वार बुधवार स्थान Maham चित्रपक्षीय अयनांश : 23:41:27  
अक्षांश 29:00:00 उत्तर रेखांश 76:20:00 पूर्व मध्य रेखांश 82:30:00 पूर्व स्थानिक संस्कार -00:24:40 घंटे

<b>पंचांग</b>	<b>अवकहड़ा चक्र</b>
साम्पातिक काल : 16:45:22 घं	गण _____: देव
वेलान्तर _____: 00:10:49 घं	योनि _____: वानर
सूर्योदय _____: 07:18:48 घं	नाड़ी _____: अन्त्य
सूर्यास्त _____: 17:52:24 घं	वर्ण _____: वैश्य
चैत्रादि संवत _____: 2044	वश्य _____: जलचर
शक संवत _____: 1909	वर्ग _____: मार्जार
मास _____: माघ	र्युजा _____: अन्त्य
पक्ष _____: शुक्ल	हंसक _____: भूमि
तिथि _____: 2	जन्म नामाक्षर _____: खे-खेमचन्द
नक्षत्र _____: श्रवण	पाया(रा.-न.) _____: लौह-ताम्र
योग _____: सिद्धि	होरा _____: चंद्र
करण _____: बालव	चौघड़िया _____: अमृत


<b>विंशोत्तरी</b>	<b>योगिनी</b>
चन्द्र 3वर्ष 4मा 13दि	मंगला 0वर्ष 4मा 1दि
<b>गुरु</b>	<b>पिंगला</b>
<b>04/06/2016</b>	<b>22/05/2024</b>
<b>04/06/2032</b>	<b>23/05/2026</b>
गुरु 23/07/2018	पिंगला 02/07/2024
शनि 02/02/2021	धान्या 31/08/2024
बुध 11/05/2023	भामरी 21/11/2024
केतु 16/04/2024	भद्रिका 02/03/2025
शुक्र 16/12/2026	उल्का 02/07/2025
सूर्य 04/10/2027	सिद्धा 21/11/2025
चन्द्र 02/02/2029	संकटा 02/05/2026
मंगल 09/01/2030	मंगला 23/05/2026
राहु 04/06/2032	

ग्रह	व	अ	अंश	राशि	नक्षत्र	पद	स्वामी	अं.	स्थिति	षट्बल	चर	स्थिर	ग्रह तारा
लग्न			10:03:24	कुंभ	शतभिषा	2	राहु	गुरु	---	0:00			
सूर्य			05:36:09	मक	उत्तराषाढा	3	सूर्य	बुध	शत्रु राशि	1.24	ज्ञाति	पितृ	अतिमित्र
चंद्र			18:50:17	मक	श्रवण	3	चंद्र	बुध	सम राशि	1.23	भातृ	मातृ	जन्म
मंगल			13:59:05	वृश्चि	अनुराधा	4	शनि	राहु	स्वराशि	1.57	मातृ	भातृ	प्रत्यारि
बुध			22:15:58	मक	श्रवण	4	चंद्र	शुक्र	सम राशि	1.25	अमात्य	ज्ञाति	जन्म
गुरु			28:11:33	मीन	रेवती	4	बुध	शनि	स्वराशि	1.10	आत्मा	धन	साधक
शुक्र			11:46:40	कुंभ	शतभिषा	2	राहु	शनि	मित्र राशि	1.15	पुत्र	कलत्र	विपत
शनि			03:55:01	धनु	मूल	2	केतु	चंद्र	सम राशि	1.31	कलत्र	आयु	वध
राहु	व		00:48:58	मीन	पू०भाद्रपद	4	गुरु	मंगल	सम राशि	---	---	ज्ञान	क्षेम
केतु	व		00:48:58	कन्या	उ०फाल्गुनी	2	सूर्य	राहु	शत्रु राशि	---	---	मोक्ष	अतिमित्र


### लग्न-चलित




### चन्द्र कुंडली




### नवमांश कुंडली



### सर्वाष्टकवर्ग



### दशमांश कुंडली



**DEV VANI JYOTISH & VASTU GYAN KENDER**

H N 2827 SEC. 15 SONIPAT  
9466087405. 8950315905  
Sastribalkishan2635@gmail.com

## नक्षत्रफल

आपका जन्म श्रवण नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है। अतः आपकी जन्मराशि मकर तथा राशिस्वामी शनि होगा। नक्षत्र के अनुसार आपका वर्ण वैश्य, गण देव, नाड़ी अन्त्य, योनि वानर तथा वर्ग मार्जार होगा। नक्षत्र के तृतीय चरणानुसार आप के जन्म नाम का प्रारम्भ "खे" या "खै" अक्षर से होगा।

आपकी रुचि विभिन्न प्रकार के शास्त्रों के अध्ययन तथा ज्ञानार्जन प्राप्त करने में अधिक रहेगी। अतः आप परिश्रम पूर्वक इनका विस्तृत ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपकी पुत्रों की संख्या अधिक रहेगी एवं जीवन में इनसे पूर्ण सुख को प्राप्त करेंगे। साथ ही आपकी मित्रता का क्षेत्र भी विस्तृत रहेगा। अतः मित्रों की बहुलता रहेगी एवं उनसे आपको यथोचित सहयोग एवं सम्मान प्राप्त होता रहेगा। सज्जनों के प्रति आपके मन में सेवा एवं श्रद्धा की भावना रहेगी फलतः आप इनको हादिक मान सम्मान प्रदान करेंगे। आप शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करने में अधिकांशतः सफल रहेंगे तथा वे भी आपसे पूर्ण रूप से भयभीत तथा प्रभावित होंगे इसके अतिरिक्त पुराणों तथा शास्त्रों को श्रवण करने की भी आपकी रुचि रहेगी एवं यत्नपूर्वक आप इनका श्रवण या अध्ययन करते रहेंगे।

**शास्त्रानुरक्तो बहुपुत्रमित्रः सत्पात्रभक्ति विजितारिपक्षः ।  
प्राणी पुराणश्रवण प्रवीणश्वेज्जन्मकाले श्रवणं हि यस्य ।  
जातकाभरणम्**

अर्थात् श्रवण नक्षत्र में उत्पन्न जातक शास्त्रों में सलंग्न, अधिक पुत्र और मित्रों वाला, सत्पात्रों का भक्त, शत्रुनाश करने वाला एवं पुराण श्रवण करने में तेज होता है।

देवता तथा ब्राह्मणों के प्रति आपके मन में विशेष श्रद्धा एवं सम्मान का भाव रहेगा। अतः इनकी सेवा तथा पूजा कार्य में आप प्रायः तत्पर रहेंगे। आप एक धनवान पुरुष होंगे तथा सुख पूर्वक जीवन में धनार्जन करके उसका उपभोग भी करेंगे। आप एक बुद्धिमान पुरुष होंगे तथा स्वबुद्धि एवं योग्यता के बल पर किसी उच्चाधिकार प्राप्त प्रतिष्ठित पद प्राप्त करने में भी सफल हो सकेंगे। साथ ही आप की प्रवृत्ति धार्मिक कृत्यों का पालन करने की भी रहेगी।

**श्रावणायां द्विजदेवभक्तिनिरतो राजा धनी धर्मवान् ।  
जातक परिजातः**

अर्थात् श्रवण नक्षत्र में उत्पन्न जातक देवता तथा ब्राह्मणों की भक्ति में तत्पर रहने वाला, राजा, धनी तथा धर्मनिष्ठ होता है।

समाज के सभी वर्गों में आप प्रिय होंगे तथा वे आपको पूर्ण मान सम्मान प्रदान करेंगे। विभिन्न शास्त्रों में पारंगत होने के कारण एवं श्रेष्ठ विद्वान के रूप में आप चारों तरफ ख्याति अर्जित करने में सफल रहेंगे। आप के मन में दया एवं करुणा की भावना विद्यमान

**DEV VANI JYOTISH & VASTU GYAN KENDER**

H N 2827 SEC. 15 SONIPAT  
9466087405. 8950315905  
Sastribalkishan2635@gmail.com

रहेगी तथा समयानुसार आप यथा शक्ति इस प्रवृत्ति का अनुपालन करते रहेंगे। आप एक सौभाग्य शाली व्यक्ति होंगे तथा पत्नी के रूप में एक गुणवान तथा बुद्धिमान स्त्री को प्राप्त करेंगे। आप धनाढ्य पुरुष भी होंगे। अतः सांसारिक सुखों का आप आनन्द पूर्वक जीवन में परिवार सहित उपभोग करेंगे।

**शीमाजघ्वणे श्रुतवानुदारदारो धनान्वितः ख्यातः ।  
बृहज्जातकम्**

अर्थात् श्रवण नक्षत्र में उत्पन्न जातक लक्ष्मीवान, पंडित, सौन्दर्ययुक्त, गुणीभार्या का पति, धनी तथा विख्यात होता है।

आप कृतज्ञता के गुण से सुसम्पन्न रहेंगे तथा समाज में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उपकृत होने पर उसके उपकार को हादिक रूप से स्वीकार करेंगे एवं विनम्रतापूर्वक उनका आभार भी प्रकट करेंगे। अतः आपकी इस प्रवृत्ति से लोग आपसे प्रसन्न एवं सन्तुष्ट रहेंगे। आपका शारीरिक सौन्दर्य भी दर्शनीय होगा तथा अन्य लोग आपसे प्रभावित भी रहेंगे एवं संतति संख्या भी आपकी अधिक ही रहेगी। इसके साथ ही सर्वप्रकार के सद्गुणों से युक्त होकर आप आनन्दपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे।

**कृतज्ञः सुभगोदाता गुणैः सर्वैश्च संयुक्तः ।  
श्रीमान सन्तानबहुलः श्रवणे जायते नरः ।।  
मानसागरी**

अर्थात् श्रवण नक्षत्र में जातक कृतज्ञ, सुन्दर, दानी, सर्वगुणसम्पन्न एवं अधिक सम्पत्ति वाला होता है।

आपका जन्म लौहपाद में हुआ है यद्यपि लौहपाद में उत्पन्न जातक जीवन में विभिन्न प्रकार से रोगी दुःखी, धन एवं सुख संसाधनों से हीन रहकर जीवन यापन करते हैं। परन्तु आपकी जन्म कुण्डली में चन्द्रमा की स्थिति शुभ राशि में है। अतः आपको अशुभ फलों की अपेक्षा शुभ फलों की प्राप्ति ही अधिक मात्रा में होगी। आपका शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम रहेगा तथा सामान्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होगा। आप एक दानशील व्यक्ति होंगे तथा दान देने के लिए सदैव उद्यत रहेंगे। आप एक गुणवान पुरुष होंगे तथा अपने सद्गुणों से अन्य जनों को प्रभावित करेंगे। आप शुभ कार्यों पर अधिक व्यय करेंगे। अनावश्यक या अन्य अशुभ कार्यों पर व्यय करना आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त जीवन में सर्वप्रकार के भौतिक एवं विलासमय सुखसंसाधनों से आप सुसम्पन्न रहेंगे तथा सुखपूर्वक इनका उपभोग भी करेंगे। इन्हीं विलासमय वस्तुओं पर आपका व्ययाधिक होता रहेगा।

मकर राशि में उत्पन्न होने के कारण आपका कद ऊंचा तथा मस्तक विशालाकृति का होगा। आपके नेत्र सुन्दर होंगे तथा शारीरिक सौन्दर्य भी आकर्षक रहेगा। संगीत के प्रति आपके मन में विशेष आकर्षण रहेगा एवं इसका विशेष ज्ञान अर्जित करने के लिए आप नित्य प्रयत्नशील रहेंगे तथा इसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। शीत से आप व्याकुलता की अनुभूति

**DEV VANI JYOTISH & VASTU GYAN KENDER**

H N 2827 SEC. 15 SONIPAT  
9466087405. 8950315905  
Sastribalkishan2635@gmail.com

करेंगे एवं इसको सहन करने में असमर्थ रहेंगे। सत्य के प्रति आपके मन में पूर्ण निष्ठा होगी तथा आजीवन इसका आप यत्नपूर्वक अनुपालन करने के लिए तत्पर रहेंगे। समाज में आप एक माननीय व्यक्ति होंगे एवं सभी लोग आपको हादिक मान सम्मान प्रदान करेंगे। साथ ही दूर दूर तक आपकी प्रसिद्धि भी व्याप्त रहेगी। आप कभी कभी अल्प मात्रा में क्रोध का भी प्रदर्शन करेंगे। समाज के सभी वर्गों के लिए आपके मन में प्रायः प्रेम एवं स्नेह का भाव विद्यमान रहेगा तथा घृणा एवं द्वेष की भावना किसी के भी प्रति नहीं रहेगी। आप अपनी आयु से अधिक आयु वाले मनुष्यों से प्रेम तथा मित्रता के संबंध स्थापित करने के इच्छुक रहेंगे। लेखन कार्य के प्रति भी आपकी रुचि रहेगी। अतः कविता सृजन में आपको सफलता प्राप्त हो सकती हैं। आप में उत्साह की भावना विद्यमान रहेगी परन्तु भाग्य आपका प्रबल होगा अतः कई शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्य स्वतः ही अल्प परिश्रम से सिद्ध हो जाएंगे। कभी कभी आप लालची भाव का भी प्रदर्शन करेंगे तथा अपने लिए अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न करेंगे।

**गीतज्ञः शीतभीरुः पृथुलतरशिराः सत्यधर्मोपसेवी  
प्रांशुः ख्यातोऽल्परोषो मनसिभवयुतो निर्धृगस्त्यक्तलज्जः ।।  
चार्वक्षः क्षामदेहो गुरुयुवतिरतः सत्कविवृतजङ्घो  
मन्दोत्साहोऽतिलुब्धः शाशिनि मकरगे दीर्घकण्ठोऽतिकर्णः ।।**

**सारावली**

आप पत्नी तथा पुत्र सहित अपने परिवार के पालन में अधिकांशतया व्यस्त रहेंगे। आप केवल दिखावे के लिए धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करेंगे एवं धार्मिक क्रियाओं का भी अनुपालन करेंगे। आप दूसरे लोगों की बातों से शीघ्र ही सन्तुष्ट तथा सहमत हो जाएंगे एवं उन्हीं के कहे अनुसार ही आचरण भी करेंगे। आप में आलस्य भी विद्यमान रहेगा। अतः आपके कार्य शनैः शनैः ही सम्पन्न होंगे। आपको भ्रमण तथा यात्रा करने का अत्याधिक शौक रहेगा एवं आपका अधिकांश समय भी इसी पर व्यतीत होगा। आप कठिन कार्यों को करने तथा अगम्य स्थानों पर जाने के लिए भी उत्सुक रहेंगे। साथ ही कभी कभी आप स्वभाव से कठोरता का प्रदर्शन भी अन्य जनों के समक्ष करेंगे। आप अपने जीवन काल में वात जनित रोगों से प्रायः व्याकुल रहेंगे एवं समय समय पर इनसे कष्टानुभूति भी प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त आप सर्वप्रकार से सत्वगुणों से सुशोभित रहेंगे तथा जीवन में यत्नपूर्वक उनका पालन करते रहेंगे।

**नित्यं लालयति स्वदारतनयान्धर्मध्वजोऽधः कृशः ।  
स्वक्षः क्षामकटिर्गृहीतवचनः सौभाग्ययुक्तोऽलसः ।।  
शीतालुर्मनुजोऽटनश्च मकरे सत्वधिकः काव्यकृत् ।।  
लुब्धोऽगम्यजराङ्गनासु निरतः सन्त्यक्तलज्जोऽघृणः ।।**

**बृहज्जातकम्**

आप अपने परिवारिक जनों के मध्य विशेष सम्मान अर्जित करने में अल्प मात्रा में ही सफल रहेंगे परन्तु कुल या परिवार की रीति का आप दृढता पूर्वक अनुपालन करेंगे एवं उसकी वृद्धि के लिए सर्वथा तत्पर रहेंगे। आप हमेशा स्त्री से पराजित रहेंगे तथा समस्त सांसारिक कार्यों को उसी के कथनानुसार ही सम्पन्न करेंगे। किसी भी समस्या के समाधान के

**DEV VANI JYOTISH & VASTU GYAN KENDER**

H N 2827 SEC. 15 SONIPAT  
9466087405. 8950315905  
Sastribalkishan2635@gmail.com

लिए स्वतंत्र निर्णय लेने में आप अपने आपको असमर्थ सा महसूस करेंगे। आपको विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का विस्तृत ज्ञान रहेगा। अतः समाज में दूर दूर तक एक श्रेष्ठ विद्वान के रूप में भी आप की प्रसिद्धि व्याप्त रहेगी। कभी कभी आप असत्य भाषण या अफवाह आदि फैलाने में भी अपना सक्रिय योगदान प्रदान करेंगे। महिला वर्ग में आप प्रिय एवं आदरणीय रहेंगे तथा उनसे आप को पूर्ण रूपेण प्रशंसा की प्राप्ति होगी। भाइयों के प्रति आपका विशेष ध्यान रहेगा एवं यत्न पूर्वक उनकी सहायता करते रहेंगे एवं वे भी आपका हादिक सम्मान करेंगे। धनैश्वर्य से आप सम्पन्न रहेंगे एवं इसके अभाव का आपको आभास नहीं होगा। आपके सेवक गण भी सुन्दर तथा गुणवान होंगे एवं आदर पूर्वक आपकी सेवा में सर्वथा तत्पर रहेंगे। आप में त्याग की भावना भी विद्यमान रहेगी एवं समयानुसार इस प्रवृत्ति का आप समाज या परिवार के मध्य प्रदर्शन करते रहेंगे। आप का परिवार भी बड़ा होगा एवं सुख संसाधनों की प्राप्ति के लिए आप नित्य चिन्तित रहेंगे तथा उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील भी रहेंगे।

**कुले नष्टो वशः स्त्रीणां पंडितः परिवादकः ।  
गीतज्ञो ललिताग्राहयो पुत्राद्यो भातृवत्सलः ॥  
धनी त्यागी सुभृत्यश्च दयालुर्बहुबान्धवः ।  
परचिन्तितसौख्यश्च मकरे जायते नरः ॥  
मानसागरी**

जीवन में आप किसी अन्य व्यक्ति, मित्र या सम्बन्धी की धन सम्पत्ति को प्राप्त कर सकेंगे तथा सुख पूर्वक उसका उपभोग भी करेंगे। आप केवल अपनी ही नहीं अपितु अन्य जनों के विषय में भी सोचेंगे एवं प्रयत्न पूर्वक दूसरों की सहायता भी करते रहेंगे। आप सलाह देने या मंत्रणा आदि कार्य करने में अत्यन्त ही निपुण होंगे एवं सभी लोग आपकी इस दक्षता से लाभ उठायेंगे। भाई बन्धुओं का आप पूर्ण रूप से पालन तथा सहयोग करेंगे। आप एक बहादुरी तथा वीरता के गुणों से भी सुसम्पन्न रहेंगे। एवं साहस पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे।

**विलसति परनारीं लुब्धसम्पत्ति भोगी ।  
नरपतिरिव चिन्तो मंत्रवाद प्रशस्तः ॥  
कृशतनुरतियुक्तो बन्धुवर्गस्य भर्ता ।  
भवति मकरराशिर्दानवो वीरभावः ॥  
जातक दीपिका**

गीतशास्त्र के आप एक श्रेष्ठ विद्वान हो सकेंगे तथा समाज में दूर दूर तक इस क्षेत्र में आपकी ख्याति रहेगी। आपका शरीर भी कान्ति तथा लावण्यता से युक्त रहेगा। काम भावना की आप में प्रबलता रहेगी तथा यदा कदा इससे आप व्याकुलता की भी अनुभूति करेंगे।

**कलितशीतभयः किल गीतवित्तनुरुषासहितो मदनातुरः ।  
निजकुलोत्तमवृत्तिकरः परं हिमकरे मकरे पुरुषो भवेत् ॥  
जातका भरणम्**

देव गण में पैदा होने के कारण आपकी वाणी मधुर तथा श्रेष्ठ होगी। आपकी बुद्धि

**DEV VANI JYOTISH & VASTU GYAN KENDER**

H N 2827 SEC. 15 SONIPAT  
9466087405. 8950315905  
Sastribalkishan2635@gmail.com

भी सरल रहेगी तथा आप अपने विचारों का आदान प्रदान सुगमता से सम्पन्न करेंगे एवं अन्यो के विचारों को भी सरलता पूर्वक ग्रहण करेंगे। आप को थोड़ी मात्रा में सात्विक भोजन करना अत्यन्त ही रुचिकर लगेगा। अन्य जनों के गुणों के विषय में आपको पूर्ण ज्ञान रहेगा तथा सज्जन दुर्जन की पहचान करने में भी आप समर्थ रहेंगे। साथ ही स्वयं भी श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा प्रतिपादित गुणों से युक्त रहेंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के धन वैभव से भी आप सम्पन्न रहेंगे तथा जीवन में सुखपूर्वक इसका उपभोग करेंगे।

आपका स्वरूप देखने में सुन्दर होगा तथा दानशीलता की प्रवृत्ति से भी आप युक्त रहेंगे तथा जीवन में इस प्रवृत्ति के अनुपालन के लिए भी नित्य प्रयत्नशील रहेंगे। आप एक बुद्धिमान पुरुष होंगे तथा सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करना पसन्द करेंगे एवं अनावश्यक भौतिकता तथा दिखावे से दूर ही रहने का यत्न करेंगे। इसके अतिरिक्त आप को शास्त्र ज्ञान भी विस्तृत रूप से रहेगा जिसमें आप एक विद्वान के रूप में समाज में सम्मान तथा ख्याति अर्जित कर सकेंगे।

**सुस्वरः सरलोक्तमतिः स्यादल्पभोजन करो हि नरश्च ।  
जायते सुरगणे ङ्गज्ञः सुज्ञवर्णितगुणो द्रविणाद्यः । ।  
जातकाभरणम्**

अर्थात् देवगण का जातक अच्छी वाणी वाला, सरल बद्धि से युक्त, अल्प मात्रा में भोजन करने वाला, अन्य जनों के गुणों का ज्ञाता, महान विद्वानों द्वारा वर्णित गुणों से युक्त तथा वैभवशाली होता है।

वानर योनि में उत्पन्न होने के कारण आप में स्वाभाविक रूप से चंचलता का भाव विद्यमान रहेगा। मिष्टान के आप अत्याधिक प्रेमी होंगे तथा इसे नित्य भक्षण करने के लिए लालयित रहेंगे। धन प्राप्त करने के लिए आप में व्याकुलता रहेगी तथा इसे प्राप्त करने में आप आतुरता का भी प्रदर्शन करेंगे। आपकी सभी संतति बुद्धिमान एवं गुणवान होंगी। विवाद आदि में भी आपकी रुचि रहेगी एवं अन्य जनों से आपका विवाद भी होता रहेगा। साथ ही वीरता के गुणों से भी आप युक्त रहेंगे तथा साहस पूर्वक अपना जीवन यापन करेंगे।

**चपलो मिष्टभोगी चार्थलुब्धश्च कलिप्रियः ।  
सकामःसत्प्रजःशूरोनरो वानरयोनिजः । ।  
मानसागरी**

अर्थात् वानर योनि में उत्पन्न पुरुष चंचल, मीठी चीजों का खाने वाला, धन का लोभी, झगड़ों का प्रेमी, काम चेष्टा वाला, अच्छी सन्तान से युक्त एवं शूरवीर होता है।

आपके जन्म समय में चन्द्रमा की स्थिति द्वादश भाव में है। अतः आपकी माता का स्वास्थ्य सामान्य अच्छा रहेगा तथा यदा कदा कष्टों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपके प्रति उनके मन में वात्सल्य का भाव रहेगा तथा जीवन में आपको प्रायः यथाशक्ति अपना सहयोग प्रदान करती रहेंगी। आप उनसे अच्छे तथा पुण्य के कार्यों के प्रति प्रवृत्त होंगे तथा

**DEV VANI JYOTISH & VASTU GYAN KENDER**

H N 2827 SEC. 15 SONIPAT  
9466087405. 8950315905  
Sastribalkishan2635@gmail.com

समयानुसार दानादि को भी उन्हीं के कथनानुसार सम्पन्न करेंगे।

आपके मन में भी उनके प्रति आदर का भाव रहेगा एवं उनकी आज्ञा का पालन आप कुछ अवसरों को छोड़कर करते रहेंगे। आपके परस्पर संबंध विशेष मधुर नहीं होंगे क्योंकि आप में काफी मतभेद रहेंगे तथापि सांसारिक संबंधों में कोई तनाव नहीं रहेगा एवं सामंजस्य पूर्वक आप के परस्पर व्यवहार चलते रहेंगे। साथ ही उन्हें कष्ट के समय आप अपनी ओर से पूर्ण सहयोग तथा सहायता अवश्य प्रदान करेंगे।

आपके जन्म समय में सूर्य द्वादश भाव में स्थित है अतः आपके पिता का शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा एवं यदा कदा शारीरिक अस्वस्थता भी रहेगी। आपके प्रति उनके मन में स्नेह का भाव रहेगा। धन सम्पत्ति से वे प्रायः युक्त ही रहेंगे एवं जीवन में शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में आपको नित्य अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। दानशीलता की प्रवृत्ति से वे युक्त रहेंगे एवं आपको भी पुण्य कार्यों को करने की नित्य प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे।

आप का भी उनके प्रति मन में पूर्ण आदर का भाव रहेगा एवं समयानुसार उनकी आज्ञा का आप अनुपालन करते रहेंगे। आपके आपसी संबंध अच्छे होंगे परन्तु बीच बीच में कभी सैद्धान्तिक मतभेद भी उत्पन्न होंगे जिससे संबंधों में तनाव या कटुता आएगी लेकिन कुछ समय के उपरान्त स्वतः ही ठीक हो जाएगा। साथ ही आजीवन में हमेशा उनके सहयोग एवं सहायता के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगे एवं उन्हें किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं होने देंगे तथा समयानुसार आर्थिक या अन्य प्रकार की वांछित सहयोग भी प्रदान करेंगे।

आपके जन्म समय में मंगल की स्थिति दशम भाव में है अतः भाई बहिनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा परन्तु यदा कदा शारीरिक अस्वस्थता भी महसूस करेंगे। आपके प्रति उनके मन में पूर्ण स्नेह विद्यमान रहेगा। धन सम्पत्ति से वे युक्त रहेंगे एवं जीवन में समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में आपको अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त सुख दुःख में भी उनसे वांछित सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। तथा नौकरी या यपार संबंध कार्यों में भी वे आपको सहयोग प्रदान करगें।

आपके हृदय में भी उनके प्रति पूर्ण स्नेह का भाव रहेगा तथा आपसी संबंधों में भी मधुरता रहेगी परन्तु कई बार मतभेदों के कारण संबंधों में तनाव भी उत्पन्न होगा परन्तु यह अल्प समय तक रहेगा। इसके साथ ही आप आजीविका संबंधी कार्यों में भी उन्हें सहयोग प्रदान करते रहेंगे एवं सुख दुःख में भी एक दूसरे का सहायता करते रहेंगे।

आपके लिए वैशाख मास, चतुर्थी, नवमी तथा चतुर्दशी तिथियां, रोहिणी नक्षत्र, वैधृतियोग, शकुनि करण, मंगलवार चतुर्थ प्रहर तथा सिंह राशि के चन्द्रमा हमेशा अशुभ फल दायक रहेंगे। अतः आप 15 अप्रैल से 14 मई के मध्य 4,9,14 तिथियों, रोहिणी नक्षत्र, वैधृतियोग तथा शकुनिकरण में कोई भी शुभ कार्य व्यापार प्रारम्भ, नवगृहनिर्माण, क्रयविक्रयादि अन्य महत्वपूर्ण एवं शुभ कार्यों को सम्पन्न न करे अन्यथा लाभ की अपेक्षा हानि ही होगी। साथ ही मंगलवार, चतुर्थ प्रहर तथा सिंह राशि के चन्द्रमा को भी शुभ कार्यों में वर्जित रखें। इन दिनों तथा समय में शारीरिक सुरक्षा का भी पूर्ण ध्यान रखें।

यदि आपके लिए समय अशुभ चल रहा हो मानसिक तथा शारीरिक व्याकुलता, व्यापार में हानि, नौकरी या पदोन्नति में बाधा उत्पन्न हो रही हों तो ऐसे समय में आपको अपने इष्ट देव नृसिंह भगवान की उपासना करनी चाहिए तथा शनिवार के उपवास भी रखने चाहिए। इसके साथ ही सोना, नीलम, लोहा, कम्बल, तिल, तेल, चर्मपादुकाएं आदि पदार्थों का श्रद्धापूर्वक दान करना चाहिए। इससे आपको इससे आपको मानसिक शान्ति प्राप्त होगी तथा अशुभ फलों में न्यूनता आएगी। इसके अतिरिक्त शनि के तांत्रिक मंत्र के कम से कम 19000 जप किसी योग्य विद्वान के द्वारा सम्पन्न करवाने चाहिए इससे आपके लाभमार्ग प्रशस्त होंगे तथा शुभ फलों में वृद्धि होगी।

**ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः।**

**मंत्र- ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः।**



**DEV VANI JYOTISH & VASTU GYAN KENDER**

H N 2827 SEC. 15 SONIPAT  
9466087405. 8950315905  
Sastribalkishan2635@gmail.com